



## क्षेत्रीय वीज़ा

### COVID-19 का परीक्षण और उपचार

यदि आपके पास वीज़ा नहीं है, या यदि आप अपने वीज़ा की स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं, तो भी आपको जनस्वास्थ्य निर्देशों का पालन करना होगा। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे/रही हैं, तो चिकित्सीय सलाह लें और COVID-19 का परीक्षण करवाएँ।

राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारें निःशुल्क COVID-19 परीक्षण और उपचार उपलब्ध करा रही हैं।

- [ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र](#)
- [न्यू साउथ वेल्स](#)
- [उत्तरी राज्य-क्षेत्र](#)
- [क्वींसलैंड](#)
- [दक्षिण ऑस्ट्रेलिया](#)
- [तस्मानिया](#)
- [विक्टोरिया](#)
- [पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया](#)

### मेरे पास एक कुशलता-प्राप्त क्षेत्रीय (अनंतिम) [Skilled Regional (Provisional)] वीज़ा है (उपवर्ग 489, 491 और 494)

ये वीज़ा अस्थायी वीज़ा होते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने और कार्य करने के इच्छुक कुशलता-प्राप्त कर्मियों को स्थायी निवासी बनने के लिए संभावित मार्ग प्रदान करते हैं।

ये वीज़ा क्षेत्रीय समुदायों और व्यवसायों को कुशलता-प्राप्त आप्रवासियों के सुलभ होने में समर्थन देते हैं, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को सहायता मिल सके और आप्रवासियों व उनके परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित समुदायों में बसने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।

### वित्तीय कठिनाइयों का अनुभव करने वाले वीज़ा धारक

यदि आप स्वयं को समर्थित रखने में असक्षम हैं, तो आपको अपने गृह-देश वापिस जाने की व्यवस्थाएँ करनी चाहिए।

यदि आप अपने जीवन-यापन के तत्काल खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हैं, तो आपको वित्तीय वर्ष 2019-20 के अपने ऑस्ट्रेलियाई सुपरएन्युएशन में से अधिकतम \$10,000 की कर-मुक्त धनराशि सुलभ हो सकती है।

कृपया [सुपरएन्युएशन की समय-पूर्व सुलभता के लिए ऑस्ट्रेलियाई कराधान कार्यालय का वेबपृष्ठ](#) देखें।